

समझौता ज्ञापन

मॉयल लिमिटेड



एवं

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार



के मध्य

समझौता ज्ञापन

२०१४-१५



मॉयल लिमिटेड

“मॉयल भवन”, १-ए, काटोल रोड,
नगपूर - ४४० ०१३.





मॉयल लिमिटेड एवं इस्पात मंत्रालय

के मध्य

समझौते का ज्ञापन

जैसा कि , मॉयल द्वारा हासिल किए गए निष्पादन की गतिशीलता में वृद्धि करना एवं उसे कायम रखना अति आवश्यक है, अतः मॉयल लिमिटेड एवं इस्पात मंत्रालय आगे निम्नलिखित दर्शाये गये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहमत हैं :-

यह सहमति पत्र निम्नलिखित पांच भागों में रचित है :-

भाग- १ दृष्टि / मिशन एवं उद्देश्य

भाग- २ वृद्धीगत स्वायत्तता का प्रयोग एवं वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन

भाग- ३ कार्य निष्पादन मुल्यांकन परिमाण तथा लक्ष्य

भाग- ४ सरकार की ओर से वचनबद्धता /सहायता

भाग- ५ समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन तथा निगरानी हेतु कार्य योजना



भाग-9
दृष्टि/मिशन एवं उद्देश्य

दृष्टि /मिशन :

उपलब्ध कुशल साधनों के उपयोग एवं उन्नयन द्वारा विश्व की उत्तम मैंगनीज खनन कंपनियों में से एक बनना ।

संयुक्त उपक्रम एवं तकनीकी के स्थानांतरण के माध्यम द्वारा मूल्यवर्धन को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर पर कंपनी के कार्यकलापों को सभी संभावित क्षेत्रों में फैलाना/वृद्धि करना ।

उद्देश्य :

१. भारत के मैंगनीज उद्योग बाजार में अपनी अग्रणी प्रतिष्ठा को बनाए रखना ।
२. पर्याप्त अधिशेषों का निर्माण करना एवं पणधारियों को संतोषप्रद लाभांश सुनिश्चित करना ।
३. सभी स्तरों पर मैंगनीज अयस्क तथा संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखना तथा गुणवत्ता पूर्ण सामग्री एवं सेवाएं शीघ्र प्रदान कर ग्राहकों के समाधान में वृद्धि करना ।
४. निम्न एवं मध्यम श्रेणी के अयस्क के परिष्करण एवं मूल्यवर्धन हेतु खनन एवं उन्नयन प्रणाली का विविधिकरण एवं आधुनिकरण करने के लिए अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नई तकनीकी अपनाना ।
५. क) मानव एवं भौतिकी संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा उत्पादकता क्षमता का उपयोग एवं लागत दक्षता में सुधार लाना ।
ख) फैंरो मैंगनीज संयंत्र के लिए हर संभव सस्ते लागत प्रणाली की प्रभावी बिजली सेवाओं की खोज करना ।
६. खनन क्षेत्र को साफ, हरित एवं पर्यावरण मित्र बनाना ।
७. अधिक सुधारित सुरक्षा कार्य प्रणाली द्वारा शून्य दुर्घटना दर के लिए प्रयास करना ।
८. कर्मचारियों एवं उद्योग क्षेत्र में आने वाले अन्य पणधारियों का गुणवत्ता पूर्ण जीवन सुनिश्चित करना ।



भाग-२

वृद्धिंगत स्वायतता का प्रयोग एवं वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन

मिनीरत्न श्रेणी-१ कंपनी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के सभी अधिकार, मॉयल लिमिटेड को आगे जारी रहेंगे ।



खण्ड-३

पिछले पांच वर्षों का मॉयल का वस्तुगत एवं वित्तीय निष्पादन संकलन परिपत्र में दर्शाया गया है ।
वर्ष २०१४-१५ के दौरान कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु निष्पादन सूचक तथा प्रत्येक का संबंधित प्रभाव नीचे दर्शाया गया है ।

निष्पादन	इकाई	भार	एम.ओ.यू.	निष्पादन मूल्यांकन					दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्रोत/ दस्तावेज का उदगम	
			२०१३-१४	उत्कृष्ट	अत्युत्तम	उत्तम	औसत	निराशा जनक		
				१	२	३	४	५		
भाग - अ										
1 स्थिर/ वित्तिय परिमाण		५०								
(i) वृद्धि / आकार / कार्य										
अ	बिक्री कारोबार (शुद्ध) (रु. करोड)	₹	१४	797.43	900.00	858.00	815.00	772.00	729.00	वार्षिक रिपोर्ट
ब	सकल प्रचालन लाभ (रु. करोड)	₹	१०	401.75	454.36	432.72	411.08	389.45	367.81	वार्षिक रिपोर्ट
(ii) लाभकारिता										
अ	क.प.ला. / शुद्ध मूल्य	%	६	11.01	12.00	11.40	10.83	10.26	9.69	
ब	ईबीआईटीडीए / शुद्ध खंड	%	५	175.11	208.70	198.76	188.82	178.88	168.95	
क	ईबीआईटी / औसत नि.पूंजी	%	५	17.67	19.56	18.63	17.70	16.77	15.84	
(iii) लागत एवं उत्पादन क्षमता										
	प्रति कर्मचारी क.प.ला. (रु. लाख में)	₹	१०	4.75	5.66	5.39	5.12	4.85	4.58	
नोट :-										
1)	कर पूर्व लाभ (ईबीआईटी) (रु. करोड़)	₹	.	489.37	583.44	555.66	527.88	500.09	472.31	वार्षिक रिपोर्ट
2)	कर पश्चात लाभ (पीएटी) (रु. करोड़)	₹	.	323.03	385.13	366.79	348.45	330.11	311.77	वार्षिक रिपोर्ट
3)	प्रक्षेपित पूंजी निवेश (२०१३-१४)	₹	.	2734.45	2944.69	2804.47	2664.25	2524.02	2383.80	वार्षिक रिपोर्ट
	प्रक्षेपित पूंजी निवेश (२०१४-१५)	₹	.	2804.47	3320.11	3162.01	3003.91	2845.81	2687.71	वार्षिक रिपोर्ट
	औसत पूंजी निवेश (रु. करोड़)	₹	.	2769.46	3132.40	2983.24	2834.08	2684.92	2535.75	वार्षिक रिपोर्ट
4)	शुद्ध मूल्य (रु. करोड़)	₹	.	2934.82	3376.57	3215.78	3054.99	2894.20	2733.41	वार्षिक रिपोर्ट
5)	सकल खंड (रु. करोड़)	₹	.	596.66	648.80	617.90	587.01	556.11	525.22	वार्षिक रिपोर्ट
6)	शुद्ध खंड (रु. करोड़)	₹	.	300.38	312.99	298.08	283.18	268.27	253.37	वार्षिक रिपोर्ट
7)	सकल लाभ (ईबीआईटीडीए)(रु. करोड़)	₹	.	526.00	622.08	592.46	562.84	533.21	503.59	वार्षिक रिपोर्ट
8)	कूल नियोजन	संख्या	.	6800	6800	6800	6800	6800	6800	वार्षिक रिपोर्ट

टिप्पणी:-

- मैंगनीज अयस्क का औसत बिक्री मूल्य ७५०० प्रति मेट्रीक टन तय किया गया है । चूंकी मैंगनीज अयस्क की कीमत परिवर्तनशील है तो यदि वास्तविक वसूली प्रति मेट्रीक टन में +/- १० का फर्क होता है तो समझौता ज्ञापन २०१४-१५ का अनुमानित मूल्य के आधार पर किया जाएगा ।
- सकल बिक्री लक्ष्य (अतिउत्तम) रु ६०० करोड़ है तथा रॉयल्टी, कर एवं ड्यूटीस घटाकर शुद्ध बिक्री लक्ष्य (अतिउत्तम) की गणना ८५८ करोड़ रु की गई है ।
- इसके पहले के समझौता ज्ञापन में कुछ मापदण्ड नहीं थे किन्तु तुलना करने हेतु २०१४-१५ के समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों के मापदण्डों के साथ मिलान होने के लिए आंकड़ों की पुर्नगणना की गई ।



निष्पादन		इकाई	भार	एम.ओ.यू. २०१३-१४	निष्पादन मूल्यांकन					दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्रोत/ दस्तावेज का उदगम
					उत्कृष्ट	अत्युत्तम	उत्तम	औसत	निराशा जनक	
					१	२	३	४	५	
2	गतिशील / अवित्तीय परिमाण		४५							
(i)	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी एवं संपोषकता (२०१३-१४ का कर पश्चात लाभ का खर्च)		३		अनुलग्नक -१ के अनुसार					वार्षिक रिपोर्ट
(ii)	अनुसंधान एवं विकास (२०१३-१४ का कर पश्चात लाभ का खर्च)	%	२		0.53	0.50	0.48	0.45	0.43	वार्षिक रिपोर्ट
(iii)	वृद्धि के लिए पहल	११								
अ	भौतिकी लक्ष्य / उत्पादन									
i	मैंगनीज अयस्क का उत्पादन (फाइनस का समावेश)	००० टन	४.००	1125	1150	1125	1069	1013	956	प्रमाणित विवरण
ii	प्रस्तावित फेरो अलाय संयंत्र को बिजली पूर्ति करने हेतु इओआय के प्रतिक्रिया स्वरूप बिजली उत्पादकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संभावना रिपोर्ट बनाने के लिए		१.००		नव. ३० २०१४	दिस. ३१ २०१४	जन. ३१ २०१५	फर. २८ २०१५	मार्च ३१ २०१५	प्रमाणित विवरण
ब	विस्तारिकरण/विविधिकरण/अधिग्रहण/संयुक्त उद्यम									
i	विस्तार हेतु महाराष्ट्र में नये लीज क्षेत्र का भू.भौतिकी संभावना पूर्ण करना		१.५०		दिस. ३१ २०१४	जन. १५ २०१५	जन. ३१ २०१५	फर. २८ २०१५	मार्च ३१ २०१५	बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट
ii	विस्तार हेतु गुमगाव एवं कांद्री खान में मैंगनीज अयस्क के नये स्रोत / भंडार का पता लगाना		१.५०		जन. ३१ २०१५	फर. १५ २०१५	फर. २८ २०१५	मार्च १५ २०१५	मार्च ३१ २०१५	परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र
iii	उचित अध्ययन के लिए विदेश का पता लगाना		१.५०		फर. २८ २०१५	मार्च १० २०१५	मार्च १५ २०१५	मार्च २५ २०१५	मार्च ३१ २०१५	प्रमाणित विवरण
iv	खान विस्तार हेतु कान्द्री खान वर्टीकल शाफ्ट के गहरीकरण की संभावना रिपोर्ट बनाना		१.५०		जुन ३० २०१४	जुलै ३१ २०१४	ऑग. ३१ २०१४	सित. ३० २०१४	अक्टु. ३१ २०१४	परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र
(iv) परियोजना प्रबंधक एवं क्रियान्वयन:		१०								
अ वर्ष के दौरान पूर्ण किए जानेवाली परियोजना की संख्या										
१	उकवा खान वर्टीकल शाफ्ट की सिंकिंग एव सज्जीकरण पूर्ण करना		२		नव. ३० २०१४	दिस. ३० २०१४	जन. ३१ २०१५	फर. २८ २०१५	मार्च ३१ २०१५	प्रमाणित विवरण
२	मॉयल की परियोजना पर पूंजीगत खर्च (रु.क.) (बजट वर्ष २०१४-१५ के अनुसार)		१		132.79	123.94	115.08	106.23	97.38	वार्षिक रिपोर्ट
३	सभी खानोंपर गवेषणात्मक ड्रिलिंग	मि.	३	4600	5000	4900	4655	4410	4165	प्रमाणित विवरण



निष्पादन	इकाई	भार	एम.ओ.यू.	निष्पादन मूल्यांकन					दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्रोत/ दस्तावेज का उदगम	
			२०१३-१४	उत्कृष्ट	अत्युत्तम	उत्तम	औसत	निराशाजनक		
				१	२	३	४	५		
ब वर्ष के दौरान पूर्ण न किए गए नए/चालू परियोजनाओं की पूर्ण करने की समय सीमा										
i	रेजिंग के साथ बालाघाट होम्स शाफ्ट का ५० मिटर तक गहरीकरण		२		जन. ३१ २०१५	फर. १५ २०१५	फर. २८ २०१५	मार्च १५ २०१५	मार्च ३१ २०१५	परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र
ii	रेजिंग के साथ चिखला वर्टीकल शाफ्ट का ५० मिटर तक गहरीकरण		२		जन. ३१ २०१५	फर. १५ २०१५	फर. २८ २०१५	मार्च १५ २०१५	मार्च ३१ २०१५	परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र
(v) उत्पादकता एवं आंतरिक प्रक्रिया ६										
अ मानव बल/संसाधन की क्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु उपाय										
i	ई-खरीदी	%	२	-	50	45	35	25	15	प्रमाणित विवरण
ii	तिरोडी खान पर उर्जा बचत	%	१		0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	प्रमाणित विवरण
iii	बालाघाट खान पर बेनिफिशियेशन संयंत्र की (प्रतिशत में) रिकवरी	%	१		70	69	68	67	66	प्रमाणित विवरण
ब ग्राहक फोकस - ग्राहक समाधान सूचकांक एवं शिकायतें										
i	डी.ओ. जारी किए जाने के मामले में प्राप्त शिकायतों की संख्या	%	२	2.25	1.75	1.84	1.93	2.03	2.13	प्रमाणित विवरण
(vi) तकनीकी, गुणवत्ता, नवीकरण ७										
a) गुणवत्ता प्रबंधन										
i	उकवा खान के लिए ओएचएसएस १८००१-२००७ प्रमाणिकरण		२		नव. ३० २०१४	दिस. ३१ २०१४	जन. ३१ २०१५	फर. २८ २०१५	मार्च ३१ २०१५	ओएचएसएस प्रमाणपत्र
ii	तिरोडी खान के लिए ओएचएसएस १८००१-२००७ प्रमाणिकरण		२		नव. ३० २०१४	दिस. ३१ २०१४	जन. ३१ २०१५	फर. २८ २०१५	मार्च ३१ २०१५	ओएचएसएस प्रमाणपत्र
iii	बालाघाट खान आयआयटी खड़गपुर द्वारा लॉगहोल ब्लॉस्टिंग पर अनुसंधान एवं विकास अध्ययन के आधार पर डेवलपमेंट हेतु बूमर्स पर:स्थापना करना		१		अक्टु. ३१ २०१४	नव. ३० २०१४	दिसं. ३१ २०१४	जन. ३१ २०१५	फर. २८ २०१५	प्रमाणित विवरण



निष्पादन	इकाई	भार	एम.ओ.यू. २०१३-१४	निष्पादन मूल्यांकन					दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्रोत/ दस्तावेज का उद्गम
				उत्कृष्ट	अत्युत्तम	उत्तम	औसत	निराशा जनक	
				१	२	३	४	५	
b) सुरक्षा प्रबंधन									
दुर्घटना के कारण प्रति १००० मानव कार्य दिवस पर मानव दिवस की हानि	मानव दिवस	२	0.50	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	प्रमाणित विवरण
(vii) मानव संसाधन प्रबंधन			६.००	अनुलग्नक-३ के अनुसार					
3 सेक्टर विशिष्ट परिमाण			५						
i ओपन कास्ट खान में डेवलपमेंट	००० घन मि.	३	4805	5800	5525	5249	4973	4696	प्रमाणित विवरण
ii अंडर ग्राउंड खान में डेवलपमेंट	मि.	२	6935	7800	7425	7054	6683	6311	प्रमाणित विवरण

	कुल	१००
--	-----	-----

टिप्पणी :-

१. डी.पी.ई. के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक १८(८)/२००५-जीएम दिनांक २२.६.२०११ तथा का. ज्ञा. क्रमांक ३ (१२)/२०१२-डीपीई(एमओयू) दिनांक १०.१.२०१३ के अनुसार यदि कार्पोरेट गर्हजनसं का अनुपालन नहीं किया जाता है तो नकारात्मक अंक के द्वारा दण्डित किया जाएगा तथा एमओयू के प्राप्तांक में वृद्धि की जाएगी ।

२. डी.पी.ई. के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक डी.पी.ई./१४ (३८)/१०-एफआईएन दिनांक २८ जून २०११ के अनुसार जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करन के संबंध में सी.पी.एस.ई. ने प्रमाण पत्र देना होगा तथा इनके कार्यरत लेखा परीक्षक/सनद लेखापाल के द्वारा भी प्रमाण पत्र देना होगा । डी.पी.ई. के दिशा निर्देशों का अपालन का निर्धारण प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है और समझौता ज्ञापन के मुल्यांकन के समय टास्क-फोर्स के निर्देश पर १ अंक तक दंडित किया जाएगा । (अर्थात समझौता ज्ञापन की रेटिंग ०.०४ से बढ़ाई जा सकती है ।)



समझौता ज्ञापन २०१४-१५ के लिए सीएसआर एवं एसडी परियोजनाएं									
चयन किए गए परियोजनाओं का विवरण									
अनु.	परियोजना का नाम	..के अंतर्गत परियोजना	माप की इकाई	मात्रा	प्रारंभ तिथि	समाप्ति तिथि उत्कृष्ट	समाप्ति तिथि अति उत्तम	राशि (रु. लाख मे.)	दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्रोत/ दस्तावेज का उद्गम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	भंडारा/बालाघाट पिछड़े जिले में पेय जल पूर्ति करने हेतु बोरवेल/हैंड पम्पस लगाना	सीएसआर	नग	३८	अप्रैल २०१४	जन. २०१५	मार्च २०१५	४०.००	परियोजना समाप्ति प्रमाणपत्र
२	सामाजिक वनीकरण प्रणाली द्वारा वृक्षारोपण करना	एसडी	नग	२८५००	अप्रैल २०१४	जन. २०१५	मार्च २०१५	३०.००	परियोजना समाप्ति प्रमाणपत्र
							कुल	७०.००	

नोट : निविदा प्रक्रिया में प्राप्त सबसे कम बोली पर लागत में अंतर आ सकता है। लगाई गई मात्रा का परिवेक्षण किया जाएगा।

अनुलग्नक-२

सकल प्रचालन लाभ का विवरण

रु. करोड में

विवरण	राशि
सकल बिक्री	900.19
कम: उत्पाद शुल्क	8.50
रायलटी एवं वेलफेअर सेस	33.69
	42.19
शुद्ध बिक्री	858.00
कमी :	
परिचालन व्यय	मानव श्रम 293.30
	कच्चे माल का खर्च 28.66
	स्टोर एव. स्पेअर्स 56.03
	बिजली एव. ईंधन 47.97
	टेकेदार एवं अन्य खर्च 86.57
	अन्य खर्च 29.07
	कुल संचालन खर्च 541.60
	स्टॉक कम/ज्यादा -31.06
	510.54
जोड़ :	प्रशासनिक खर्च 85.26
सकल प्रचालन लाभ	432.72
जोड़ :	अन्य आय 245.00
कमी :	प्रशासनिक खर्च 85.26
सकल लाभ	592.46



समझौता ज्ञापन २०१४-१५ के लिए मानव संसाधन प्रबंधन आकार

अनु.	परियोजना का नाम	इकाई	भार	निष्पादन मूल्यांकन					दस्तावेजी साक्ष्य एवं स्रोत/ दस्तावेज का उदगम
				उत्कृष्ट	अत्युत्तम	उत्तम	औसत	निराशा जनक	
१ उत्तराधिकारी योजना के लिए कर्मचारियों के श्रेणीकरण हेतु मूल्यांकन केन्द्र									
अ.	बाहरी एजेंसी की नियुक्ति	तारीख	०.५०	जुन ३० २०१४	जुलै ३१ २०१४	ऑगस्त ३१ २०१४	सितंबर ३० २०१४	अक्टुबर ३१ २०१४	कार्यदिश
ब.	सेवा निवृत्ति के लिए ३ वर्ष शेष १००% डीजीएम, जीएम, ई.डी. के लिए उत्तराधिकारी योजना		१.००	जन. ३० २०१५	फर. १५ २०१५	फर. २८ २०१५	मार्च १५ २०१५	मार्च ३१ २०१५	बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट
२ कर्मचारियों का प्रशिक्षण									
अ.	५०% मंडल स्तरीय अधिकारी एवं ई.डी./जी.एम. के लिए नेतृत्व, निगमित अधिशासन तथा रणनीति एवं जोखिम प्रबंधन विषय पर		०.५०	हों				ना	प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
ब.	५०% अन्य अधिकारी		०.५०	हों				ना	प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
क.	१०% कर्मचारी/कामगार		०.५०	हों				ना	प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
३ कर्मचारियों को प्रोत्साहन									
अ.	बाहरी एजेंसी की नियुक्ति एवं रिपोर्ट की प्रस्तुतीकरण	तारीख	१.००	दिस. ३१ २०१४	जन. ३० २०१५	फर. १५ २०१५	फर. २८ २०१५	मार्च १५ २०१५	कार्यदिश एवं बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट
४ कर्मचारियों के कल्याण के लिए सर्विस चार्टर का विकास									
अ.	निदे.(उ.एवं.यो.), निदे. (वित्त), ईडी/जी.एम.(का.), युनियन एवं प्रबंधन प्रतिनिधि समिती का गठन		०.५०	हों				ना	प्रमाणित विवरण
ब.	(अ.) से संबंधित समिती की सभा	सभा की संख्या	०.५०	६	५	४	३	२	प्रमाणित विवरण
क.	(अ.) से संबंधित समिती की अ.स. प्र.नि. के साथ सभा	सभा की संख्या	०.५०	२	१	०	०	०	प्रमाणित विवरण
ड.	प्रशासनिक मंत्रालय के साथ निदेशक (कार्मिक) पद के लिए कार्यवाही		०.५०	हों				ना	मण्डल प्रस्ताव
			६.००						



भाग-४


सरकार द्वारा प्रतिबद्धताएं / सहायता :

- १ जब भी खनन पट्टे के नूतनीकरण का मामला आता है तो योग्य प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में
- २ जब कभी आवश्यकता हो तो मैंगनीज अयस्क को भेजने के लिए रेलवे वैगन प्राप्त करने में सरकार सहायता करने का वचन देती है ।


खण्ड - ५

समझौता ज्ञापन के अनुपालन करने एवं निगरानी करने की कार्य योजना :-

- १ प्रत्येक तिमाही के समाप्ति के ३० दिनों के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मॉयल वचन देती है
- २ समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों की पूर्ति के कार्य निष्पादन की आंतरिक निगरानी करना भी, मॉयल का निदेशक मण्डल सुनिश्चित करेगा
- ३ मंत्रालय स्तर पर अर्धवार्षिक संयुक्त समीक्षा बैठक ली जाएगी।



(जी.पी.कुंदरगी)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
मॉयल लिमिटेड
नागपुर



(जी.मोहन कुमार)
सचिव
इस्पात मंत्रालय
नई दिल्ली

दिनांक : 25-3-14.

स्थान : नई दिल्ली



मॉयल लिमिटेड

पिछले पांच वर्षों का वित्तीय परिमाण पर कार्यनिष्पादन का झुकाव


(रु. करोड़ में)

विवरण	२००६-१०		२०१०-११		२०११-१२		२०१२-१३		२०१३-१४		२०१४-१५
	एमओयु	वास्तविक	एमओयु	वास्तविक	एमओयु	वास्तविक	एमओयु	वास्तविक	एमओयु	प्रस्ता.	प्रस्तावित
कुल उत्पादन (००० टन.)	1075.00	1093.00	1150.00	1150.00	1150.00	1071.00	1150.00	1139.00	1125.00	1125.00	1125.00
उत्पादन (रु. करोड़)	340.38	388.60	465.25	410.44	486.35	502.37	473.81	573.51	555.14	555.14	556.00
शुद्ध विक्री	607.94	927.85	957.36	1096.47	1100.23	866.48	757.78	930.74	797.43	797.43	858.00
ब्याज एवं अन्य आय	72.00	129.92	85.00	145.28	86.00	203.32	160.00	235.27	209.51	209.51	245.00
सकल प्रचालन पडता दर %	62.76%	71.53%	67.89%	77.73%	69.87%	58.39%	58.23%	55.85%	50.38%	50.38%	50.43%
सकल प्रचालन पडता	381.57	663.69	649.94	852.32	768.73	505.95	441.26	519.80	401.75	401.75	432.72
ईबीआयटीबीए	392.05	732.09	650.00	912.66	782.00	636.54	516.00	669.81	526.00	526.00	592.46
मूल्य ह्रास	27.84	25.30	30.25	32.51	32.35	29.91	35.97	33.03	36.63	36.63	36.80
ईबीआयटी	364.21	706.79	619.75	880.15	749.65	606.63	480.03	636.78	489.37	489.37	555.66
ब्याज खर्च											
पूर्वकालिन खर्च											
अतिरिक्त सामान्य मद											
कोई अन्य खर्च											
कर पूर्व लाभ	364.21	706.79	619.75	880.15	749.65	606.63	480.03	636.78	489.37	489.37	555.66
कर	123.79	240.44	210.65	292.10	249.01	195.86	159.45	205.07	166.34	166.34	188.87
कर पश्चात लाभ	240.42	466.35	409.10	588.05	500.64	410.77	320.58	431.71	323.03	323.03	366.79
भुगतानी लाभ/हानि	48.08	94.08	81.82	117.60	100.13	84.00	64.12	92.40	64.61	64.61	73.36
संवैधानिक आरक्षण को स्थानांतरित लाभ											
कोई अन्य मद											
तुलना पत्रको स्थानांतरित लाभ	184.00	357.00	313.00	450.00	366.00	300.00	241.00	325.00	247.00	247.00	280.96
तुलना पत्रक मद											
सकल खंड	385.68	357.03	425.14	396.46	479.16	422.58	509.46	479.91	596.66	537.24	617.90
मूल्य ह्रास - कम करें	167.27	160.49	194.84	190.48	223.09	215.53	259.41	246.39	296.28	283.02	319.82
शुद्ध खंड	218.41	196.54	230.30	205.98	256.07	218.72	250.05	233.52	300.38	254.22	298.08
प्रदत्त अंश पूंजी	28.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
आरक्षण एवं अधिशेष	1589.98	1509.37	1764.63	1960.29	2340.80	2273.30	2512.83	2597.64	2766.82	2766.82	3047.78
आस्थगित रेवेन्यू खर्च/पूर्व अर्जित हानि-कम करें											
लाभ-हानि लेखा-कम करें											
शुद्ध मुल्य	1617.98	1677.37	1932.63	2128.29	2508.80	2441.30	2680.83	2765.64	2934.82	2934.82	3215.78
निवेश	0.11	0.21	67.61	2.21	60.21	4.21	82.21	0.00	72.21	0.00	0.00
कुल चालू परिसंपत्ति	1589.98	1742.79	1750.07	2204.20	2455.58	2479.55	2609.72	2846.99	2646.79	2646.79	2840.23
कुल चालू देयता एवं प्रावधान	265.55	271.52	123.45	311.39	279.94	229.36	307.11	275.17	296.54	296.54	344.09
शुद्ध चालू परिसंपत्ति	1324.43	1471.27	1626.62	1892.81	2175.64	2250.19	2302.61	2571.82	2350.25	2350.25	2496.14
नियोजित पूंजी	1542.84	1667.81	1856.92	2098.79	2431.71	2468.91	2552.66	2734.45	2650.63	2604.47	2794.22
(शुद्ध खंड+शुद्ध चालू परिसंपत्ति)											
नियोजित पूंजी											
(शुद्ध मूल्य-सीडव्यूआईपी-निवेश)	1542.84	1654.98	1857.55	2097.29	2431.71	2539.76	2552.66	2734.45	2850.63	2850.63	3162.01
कुल ऋण (कर्ज निधी)											
कुल परिसंपत्ती	1843.61	1974.55	2012.87	2442.68	2756.63	2743.25	2914.17	3134.91	2947.17	2947.17	3138.31
कर्मचारियों की संख्या	6823	6734	6756	6667	6725	6569	6725	6485	6800	6800	6800
अनुपात											
कर पश्चात लाभ / शुद्ध मूल्य	14.86	27.80	21.17	27.63	19.96	16.83	11.96	15.61	11.01	11.01	11.41
ईबीआयटीडीए / शुद्ध खंड	179.50	372.49	282.24	443.08	305.39	291.03	206.36	286.83	175.11	206.91	198.76
ईबीआयटी / नियोजित पूंजी	23.61	42.38	33.38	41.94	30.83	24.57	18.81	23.29	18.46	18.79	19.89
प्रति कर्मचारी कर पश्चात लाभ (रु. लाख में)	3.52	6.93	6.06	8.82	7.44	6.25	4.77	6.66	4.75	4.75	5.39



स्वयं घोषणा / प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष २०१४-१५ के लिए समझौता ज्ञापन हेतु जारी किए गए दिशा निर्देशों में दर्शाए गए मानकों एवं परिभाषा का अंगीकार करते हुए, समझौता ज्ञापन के दिशा निर्देशों अनुसार वित्तीय परिमाप के संबंध में, लक्ष्य एवं वास्तविक उपलब्धियों की गणना की गई है। यदि कार्य निष्पादन के आकलन के दौरान कोई त्रुटि पाई जाती है तो समझौता ज्ञापन के दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए डी.पी.ई. स्वतंत्र है। सी.पी.एस.ई. को इस संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।


(जी.पी.कुंदरगी)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक



सरकार एवं नियामक दिशा निर्देशों के पालन हेतु स्वयं घोषणा

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सरकार एवं नियामक की आवश्यकताओं के दिशा निर्देशकों का मॉयल द्वारा पालन किया गया है । यदि कार्य निष्पादन के आकलन के दौरान कोई त्रुटि पाई जाती है तो सरकार / नियामक द्वारा जारी किए गए समझौता ज्ञापन के दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए डी. पी.ई. स्वतंत्र है। सी.पी.एस.ई. को इस संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(जी.पी.कुंदरगी)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक